

गणेशपुरा : परिचय

Duration : 02.30

Transcribed words : 3

- संगीत / गांव के दृश्य / महिलाएं गीत गा रही हैं -

00.25 जगदीश नारायण : ये ब्राह्मणों और जाटों का गाँव हैं... इसमें गलत चीज नहीं है... सब काश्तकार हैं... अच्छी तरह खेती का काम करते हैं... रहन सहन बढ़िया है...

00.34 राजेन्द्र प्रसाद शर्मा : गाँव में शुद्ध वातवरण, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, सब कुछ अच्छी चीज है... और देखने का वातावरण बढ़िया है...

00.43 पंडित ब्रजराज शर्मा : रोज सुबह गाँव में लोग बाग जल्दी उठते हैं... और उठने के बाद जो अपनी दिनचर्या है, लोग बाग सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं... दूध निकालने वाला दूध निकालता है, खेती का कार्य करने वाला खेती के कार्य के लिये... माता बहनें हैं, वो जैसे भोजन बनाने के लिये, तो भोजन का कार्य करती हैं... मैं सुबह जल्दी उठ करके और भगवान की पूजा के लिये, स्नान ध्यान करने के बाद, जल की बाल्टी को साफ करके, माँज के उसको भगवान के दरबार में लाता हूँ... फिर भगवान की झाड़ू बुहारी करके और फिर भगवान का अभिषेक होता है...

01.19 मंदिर में शंख बजाकर पूजा करते हुये...

01.30 पंडित ब्रजराज शर्मा : बच्चे यहाँ के पढ़े लिखे भी हैं... और जैसे पढ़ाई के अंदर जा रहे हैं बच्चे, तो टेक्नीकल जॉब में भी, उसकी भी शिक्षा ले रहे हैं और ये जो प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर, यहाँ के बच्चे जाते हैं...

01.43 राजेन्द्र प्रसाद शर्मा : मैं 14 साल से डेरे वाला ज्वैलर्स में कार्यरत हूँ और वहाँ पे मशीनरी ऑपरेटर का मेरा काम है... एक्ज़क्यूटिव पोस्ट पर हूँ...

01.52 राजेन्द्र शर्मा : मैं 2003 से फोटोग्राफी लाइन में हूँ...

01.55 राम फूल चौधरी : मैंने द्वैल्यट साईंस से की और फिर मैंने पशुधन का डिप्लोमा होता है दो साल का, पशुधन सहायक, वो किया है...

02.02 राजेन्द्र प्रसाद शर्मा : बच्चियों की शिक्षा के प्रति यहाँ जागरूकता है... बच्चियों को शिक्षा देने के लिये, बच्चियों को पढ़ाने के लिये भेजते हैं... बाहर भी भेजते हैं...

02.10 हेमा शर्मा : मैं टेगोर कॉलेज से बी. एड. कर रही हूँ... और हिस्ट्री सिविल्स से कर रही हूँ बी. एड. और बी. ए. कर ली है मैंने... और एम. ए. प्रीविएस कर ली है...

02.19 राजेन्द्र प्रसाद शर्मा : अच्छा शिक्षित गाँव है, सम्पन्न गाँव है... और बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ के... भाई चारे की भावना से रहते हैं... और बहुत स्नेह की भावना से रहते हैं... अच्छा गाँव है...